

Total No. of Printed Pages—19

**B19-GM**

**Subject Code : C2**

( EN/AS/BN/BD/HN )

**2019**

**GENERAL MATHEMATICS**

*Full Marks : 90*

*Pass Marks : 27*

*Time : 3 hours*

*Candidates shall note that each question will be multilingual, viz., in English/ Assamese/ Bengali/ Bodo/ Hindi medium, for their ready reference. In case of any discrepancy or confusion in the medium/version, the English version will be considered as the authentic version.*

*The figures in the margin indicate full marks for the questions.*

Take  $\pi = \frac{22}{7}$ , wherever necessary.

প্রয়োজন অনুসরি  $\pi = \frac{22}{7}$  ন'ব।

প্রয়োজন অনুসারে  $\pi = \frac{22}{7}$  নেব।

গোনাংথি বাদিয়ে  $\pi = \frac{22}{7}$  লা।

জহাঁ আবশ্যক হো  $\pi = \frac{22}{7}$  মান লীজিএ।

( 2 )

**SECTION—A / क—शाखा / क—শাখা / क—बाहाग / क—भाग**

Choose the correct answer :

শুন্দি উত্তরটো বাছি উলিওঁৰা :

শুন্দি উত্তরটি বেছে নাও :

গেৱে ফিননাযখৌ সাযখ'না দিহুন :

সহী উত্তর চুনিএ :

1. Which one of the following is a non-terminating repeating decimal?

তলৰ কোনটো নিৰবধি পৌনঃপুনিক দশমিক ?

নিম্নোক্ত কোনটি নিৰবধি পৌনঃপুনিক দশমিক ?

গাহাযনি মাৰ্বে জোৰথাহৈৰোড়ি, জাবলেফিননায ?

নিম্নলিখিত মেঁ সে কৌন-সা অসান্ত আৰ্ত্তি দশমলক্ষ প্ৰসাৰ হৈ ?

(a)  $\frac{3}{8}$

(b)  $\frac{7}{80}$

(c)  $\frac{64}{455}$

(d)  $\frac{124}{625}$

2. The product of the zeros of  $x^2 - 15$  is

$x^2 - 15$  ৰ শূন্যকেইটাৰ পূৰণফল হ'ল

$x^2 - 15$ -এৰ শূন্যগুলিৰ পূৰণফল হলো

$x^2 - 15$  নি লাথিখ'ফোৰনি সানজাবগাসৈয়া জাবায

$x^2 - 15$  কে শূন্যাঙ্কো কা গুণফল হৈ

(a)  $-15$

(b)  $15$

(c)  $\sqrt{15}$

(d)  $-\sqrt{15}$

3. Consider the following pairs of linear equations :

(i)  $3x + 2y = 5; 2x + 3y = 5$

(ii)  $2x - 3y = 7; 2x - 3y = 8$

Choose the correct alternative.

(a) The pairs in (i) and (ii) are consistent.

(b) The pairs in (i) and (ii) are inconsistent.

1

- (c) The pair in (i) is inconsistent, whereas the pair in (ii) is consistent.
- (d) The pair in (i) is consistent, whereas the pair in (ii) is inconsistent.

তলৰ বৈধিক সমীকৰণৰ যোৰকেইটা বিবেচনা কৰা :

- (i)  $3x + 2y = 5; 2x + 3y = 5$
- (ii)  $2x - 3y = 7; 2x - 3y = 8$

শুন্দি বিকল্পটো বাছি উলিওৱা ।

- (a) (i) আৰু (ii) ৰ যোৰকেইযোৰ সংগত ।
- (b) (i) আৰু (ii) ৰ যোৰকেইযোৰ অসংগত ।
- (c) (i) ৰ যোৰটো অসংগত, কিন্তু (ii) ৰ যোৰটো সংগত ।
- (d) (i) ৰ যোৰটো সংগত, কিন্তু (ii) ৰ যোৰটো অসংগত ।

নিম্নোক্ত বৈধিক সমীকৰণেৰ জোড়াগুলি বিবেচনা কৰো :

- (i)  $3x + 2y = 5; 2x + 3y = 5$
- (ii)  $2x - 3y = 7; 2x - 3y = 8$

শুন্দি বিকল্পটি বেছে নাও ।

- (a) (i) এবং (ii)-এৰ জোড়াগুলি সংগত ।
- (b) (i) এবং (ii)-এৰ জোড়াগুলি অসংগত ।
- (c) (i)-এৰ জোড়াটি অসংগত, কিন্তু (ii)-এৰ জোড়াটি সংগত ।
- (d) (i)-এৰ জোড়াটি সংগত, কিন্তু (ii)-এৰ জোড়াটি অসংগত ।

গাহাযনি হাঁখোআৰি সমানথাইনি জ'রাফোৰখৌ নায়গ্রোম :

- (i)  $3x + 2y = 5; 2x + 3y = 5$
- (ii)  $2x - 3y = 7; 2x - 3y = 8$

গেৰে ফিননাযখৌ সায়খ'না দিহুন ।

- (a) (i) আৰো (ii) নি জ'রাফোৰ খোৰজানায় ।
- (b) (i) আৰো (ii) নি জ'রাফোৰ খোৰজায় ।
- (c) (i) নি জ'রায় খোৰজায়, নাথায (ii) নি জ'রায় খোৰজানায় ।
- (d) (i) নি জ'রায় খোৰজানায়, নাথায (ii) নি জ'রায় খোৰজায় ।

निम्न ऐखिक समीकरणों के युग्मों पर विचार कीजिए :

(i)  $3x + 2y = 5; 2x + 3y = 5$

(ii)  $2x - 3y = 7; 2x - 3y = 8$

सही विकल्प चुनिए।

(a) (i) और (ii) दोनों युग्म संगत हैं।

(b) (i) और (ii) दोनों युग्म असंगत हैं।

(c) (i) का युग्म असंगत है जबकि (ii) का युग्म संगत है।

(d) (i) का युग्म संगत है जबकि (ii) का युग्म असंगत है।

4. The 30th term of the AP 10, 7, 4, ... is

10, 7, 4, ... समात्र श्रेणी का 30वाँ पद है

10, 7, 4, ... समात्र श्रेणी का 30वाँ पद है

10, 7, 4, ... सानलुलि जौगाथिनि 30थि बिदाबा जाबाय

10, 7, 4, ... समात्र श्रेणी का 30वाँ पद है

(a) - 67      (b) - 77      (c) - 87      (d) - 97

5. Let ABC be a triangle such that  $AB = 6\sqrt{3}$  cm,  $AC = 12$  cm and  $BC = 6$  cm. Angle B is

1

$ABC$  त्रिभुज  $AB = 6\sqrt{3}$  cm,  $AC = 12$  cm आरु  $BC = 6$  cm. B कोणटो है

$ABC$  त्रिभुज  $AB = 6\sqrt{3}$  cm,  $AC = 12$  cm एवं  $BC = 6$  cm. B कोणटो है

$ABC$  आखान्थिथामनि  $AB = 6\sqrt{3}$  cm,  $AC = 12$  cm आरो  $BC = 6$  cm. B ख'नाया जाबाय

$ABC$  त्रिभुज में  $AB = 6\sqrt{3}$  cm,  $AC = 12$  cm और  $BC = 6$  cm हो, तो कोण B का मान होगा

(a)  $120^\circ$       (b)  $90^\circ$       (c)  $60^\circ$       (d)  $45^\circ$

( 5 )

6. The distance between the points  $(0, 0)$  and  $(-8, 6)$  is 1

$(0, 0)$  आरू  $(-8, 6)$  विन्दु दूरी घाजब दूरज्ञ ह'न

$(0, 0)$  एवं  $(-8, 6)$  विन्दु दूरिर घधे दूरज्ञ हलो

$(0, 0)$  आरू  $(-8, 6)$  बिन्दो मोननैनि गेजेरनि जानथाइया जाबाय

दो बिन्दुओं  $(0, 0)$  और  $(-8, 6)$  के बीच की दूरी है

(a) 10

(b) 8

(c) 6

(d) 2

7. Which of the following is true? 1

(a) The value of  $\tan A$  is always less than 1.

(b) The value of  $\cot A$  is always greater than 1.

(c)  $\sin \theta = \frac{5}{3}$  for some angle  $\theta$ .

(d)  $\sec \theta = \frac{12}{5}$  for some angle  $\theta$ .

तलव कोनटो सत्य ?

(a)  $\tan A$  वर मान सदाय 1 अतकै सरू।

(b)  $\cot A$  वर मान सदाय 1 अतकै डाङ्गर।

(c) कोनो कोण  $\theta$  वाबे  $\sin \theta = \frac{5}{3}$ .

(d) कोनो कोण  $\theta$  वाबे  $\sec \theta = \frac{12}{5}$ .

निम्नोक्त कोनटि सत्य ?

(a)  $\tan A$ -एर मान सर्वदा 1 थेके छोट।

(b)  $\cot A$ -एर मान सर्वदा 1 थेके बडो।

(c) कोनो कोण  $\theta$ -एर ज्ञाय  $\sin \theta = \frac{5}{3}$ .

(d) कोनो कोण  $\theta$ -एर ज्ञाय  $\sec \theta = \frac{12}{5}$ .

[ Contd.

B19-GM/21B

गाहायनि माबे सैथो?

- (a)  $\tan A$  नि माना अरायबो 1 निखुइ उन्दै।
- (b)  $\cot A$  नि माना अरायबो 1 निखुइ गेदे।
- (c) माबेबा ख'ना  $\theta$  नि थाखाय  $\sin \theta = \frac{5}{3}$ .
- (d) माबेबा ख'ना  $\theta$  नि थाखाय  $\sec \theta = \frac{12}{5}$ .

निम्लिखित में से कौन-सा सही है?

- (a)  $\tan A$  का मान सदैव 1 से कम होता है।
- (b)  $\cot A$  का मान सदैव 1 से बड़ा होता है।
- (c) किसी कोण  $\theta$  के लिए  $\sin \theta = \frac{5}{3}$  होता है।
- (d) किसी कोण  $\theta$  के लिए  $\sec \theta = \frac{12}{5}$  होता है।

8. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground, which is 15 m away from the foot of the tower, is  $60^\circ$ . The height of the tower is

1

एटा श्वेत पादविन्दू परा 15 m आंतरत भूमित थका एटा बिन्दू परा श्वेतोर शीर्षव ऊठन कोण  $60^\circ$  ह'ले श्वेत ऊचता ह'व

एकटि श्वेतेर पादविन्दू थेके 15 m दूरे भूमिते थका एकटि बिन्दू थेके श्वेतिर शीर्षेर ऊठन कोण  $60^\circ$  ह'ले श्वेतेर ऊचता ह'वे

गंसे टावारनि गुदि बिन्दोनिफ्राय 15 m जानथाइयाव हायाव थानाय मोनसे बिन्दोनिफ्राय टावारनि जौगा ख'नाया  $60^\circ$  जायोब्ला टावारनि जौथाइया जागोन

धरती के एक बिन्दु से जो मीनार के पाद-बिन्दु से 15 m दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण  $60^\circ$  है। मीनार की ऊँचाई होगी

- (a) 15 m
- (b)  $15\sqrt{3}$  m
- (c)  $\frac{15}{\sqrt{3}}$  m
- (d)  $30\sqrt{3}$  m

9. A circle can have \_\_\_\_\_ parallel tangent(s) at the most. 1

एटा वृत्तव बब बेछि \_\_\_\_\_ डल समान्तराल स्पर्शक थाकिब पाबे।

एकटि वृत्तेर थुब बेशि \_\_\_\_\_ टि समान्तराल स्पर्शक थाकते पाबे।

मोनसे बेखनाव बासिल्लाबो दों \_\_\_\_\_ लिग नांग्रिद हांखो थानो हागौ।

एक वृत्त की अधिक से अधिक \_\_\_\_\_ स्पर्श-रेखाएँ हो सकती हैं।

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 4

10. The degree measure of the angle at the centre of a circle is 1.

The area of the sector is

1

वृत्तव केन्द्रेर कोणटोर डिग्रीमाप 1, वृत्तकणाटोर कालि इ'ल

वृत्तेर केन्द्रेर कोणटिर डिग्रीमाप 1, वृत्तकणाटिर कालि हलो।

बेखननि मिरवाव सोमजि होनाय ख'नानि डिग्रि ज'खाया 1, बेखोन्दोनि दब्लाइथिया जाबाय।

एक वृत्त के केन्द्र के कोण का मान 1 डिग्री हो, तो उसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा।

(a)  $\pi r^2$

(b)  $\frac{\pi r^2}{45}$

(c)  $\frac{\pi r^2}{180}$

(d)  $\frac{\pi r^2}{360}$

where  $r$  is the radius of the circle.

य'त  $r$  इ'ल वृत्तटोर ब्यासार्ध।

येखाने  $r$  हलो वृत्तटिर ब्यासार्ध।

जेराव  $r$  आ जाबाय बेखननि स'खाव।

यहाँ  $r$  वृत्त की त्रिज्या है।

11. The volume of a sphere is  $288\pi \text{ cm}^3$ . The radius of the

sphere is

1

एटा गोलकव आयतन  $288\pi \text{ cm}^3$ . गोलकटोर ब्यासार्ध इ'ल

एकटि गोलकेर आयतन  $288\pi \text{ cm}^3$ . गोलकटिर ब्यासार्ध हलो।

मोनसे दुलुरनि रोजागासैया  $288\pi \text{ cm}^3$ . दुलुरनि स'खावा जाबाय।

किसी गोलक का आयतन  $288\pi \text{ cm}^3$  है। गोलक की त्रिज्या है।

(a) 2 cm

(b) 4 cm

(c) 6 cm

(d) 8 cm

- 12.** The probability of an impossible event is

1

এটা অসম্ভব ঘটনার সম্ভাবিতা হ'ল  
একটি অসম্ভব ঘটনার সম্ভাবিতা হলো  
মৌনসে জাথাবি জাথাইনি জাথাবনায়া জাবায়  
অসংভব ঘটনা কি প্রায়িকতা হোতী হै

- (a) 0      (b) 0·25      (c) 0·5      (d) 1

### **SECTION—B / খ—শাখা / খ—শাখা / খ—বাহাগো / খ—ভাগ**

- 13.** Find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method.  
Hence, find their LCM.

2

মৌলিক উৎপাদকীকরণ পদ্ধতিতে 96 আৰু 404-ৰ গ. সা. ও. উলিওৱা। ইয়াৰ পৰা  
সিহঁতৰ ল. সা. ও. উলিওৱা।

মৌলিক উৎপাদকীকরণ পদ্ধতি দ্বাৰা 96 এবং 404-ৰ গ. সা. ও. বেৱ কৰো।  
এৱ থেকে তাদেৱ ল. সা. ও. বেৱ কৰো।

রোদা সানজাবগিৰি বিজিৱনায় আদৰ্জো 96 আৰু 404 নি দে. আ. সা. দিহুন। বেনিফ্রায়নো  
বেসোৱনি দু. আ. সা. দিহুন।

অভাৱ্য গুণনখণ্ড বিধি দ্বাৰা 96 আৰু 404 কা HCF জাত কীজিএ আৰু ফিৰ ইনকা  
LCM জাত কীজিএ।

- 14.** Half the perimeter of a rectangular garden, whose length is  
4 m more than its width, is 36 m. Find the dimensions of  
the garden.

2

এখন আয়তাকাৰ বাগিচাৰ প্ৰস্থতকৈ দীঘ 4 m বেছি। ইয়াৰ পৰিসীমাৰ আধা 36 m.  
বাগিচাখনৰ দীঘ, প্ৰস্থ নিৰ্ণয় কৰো।

একটি আয়তাকাৰ বাগানেৱ প্ৰস্থ থেকে দৈৰ্ঘ্য 4 m বেশি। এৱ পৰিসীমাৰ অৰ্ধেক 36 m.  
বাগানটিৰ দৈৰ্ঘ্য, প্ৰস্থ নিৰ্ণয় কৰো।

( 9 )

मोनसे आयतआरि बिबार बारिनि गोलाउआ गुवारनिखुइ 4 m बांसिन। बेनि सोरगिदि सिमानि खावसेया 36 m. बिबार बारिनि गोलाउ आरो गुवारखौ दिहुन।

एक आयताकार बाग, जिसकी लंबाई, चौड़ाई से 4 m अधिक है, का अर्धपरिमाप 36 m है। बाग की सीमाएँ ज्ञात कीजिए।

15. The 11th term of an AP is 38 and the 16th term is 73. Find the common difference.

2

एटा समान्तर प्रगतिर 11तम पदटो 38 आक 16तम पदटो 73. साधारण अन्तर निर्णय कर्बा।

एकटि समान्तर प्रगतिर 11तम पदटि 38 एवं 16तम पदटि 73. साधारण अन्तर निर्णय करो।

मोनसे सानलुलि जौगाथिनि 11 थि बिदाबा 38 आरो 16 थि बिदाबा 73. आगोसार फारागाथिखौ दिहुन।

किसी समान्तर श्रेढ़ी का 11वाँ पद 38 है तथा 16वाँ पद 73 है, तो उसका सार्व अंतर (common difference) क्या होगा?

16. Find the point on the  $x$ -axis which is equidistant from (2, -5) and (-2, 9).

2

(2, -5) आक (-2, 9) बिन्दु दूटों परा समदूरत्तहत  $x$ -अक्षर ओपरत थका बिन्दुटो निर्णय कर्बा।

(2, -5) एवं (-2, 9) बिन्दु दूटि थेके समदूरत्तहत  $x$ -अक्षर उपरे थका बिन्दुटि निर्णय करो।

(2, -5) आरो (-2, 9) बिन्दो मोननैनिक्राय समान जानथाइयाव  $x$ -गुदि हांखोनि सायाव थानाय बिन्दोखौ दिहुन।

$x$ -अक्ष पर वह बिन्दु ज्ञात कीजिए जो (2, -5) और (-2, 9) से समदूरस्थ है।

( 10 )

17. If  $\sin A = \frac{3}{4}$ , calculate  $\cos A$  and  $\cot A$ . ( $A$  is an acute angle) 2

यदि  $\sin A = \frac{3}{4}$ ,  $\cos A$  आरु  $\cot A$  निर्णय कराँ। ( $A$  एटा सूक्ष्मकोण)

यदि  $\sin A = \frac{3}{4}$ ,  $\cos A$  एवं  $\cot A$  निर्णय करो। ( $A$  एकटि सूक्ष्मकोण)

जुदि  $\sin A = \frac{3}{4}$ ,  $\cos A$  आरो  $\cot A$  खौ दिहुन। ( $A$  आ मोनसे ख'नासा ख'ना)

यदि  $\sin A = \frac{3}{4}$  हो, तो  $\cos A$  और  $\cot A$  का मान परिकलित कीजिए। ( $A$  एक न्यूनकोण है)

18. Evaluate/मान निर्णय कराँ/मान निर्णय करो/मान दिहुन/मान निकालिए : 2

$$\frac{\sin 30^\circ + \tan 45^\circ - \operatorname{cosec} 60^\circ}{\sec 30^\circ + \cos 60^\circ + \cot 45^\circ}$$

19. If  $\tan 2A = \cot(A - 18^\circ)$ , where  $2A$  is an acute angle, find the value of  $A$ . 2

यदि  $\tan 2A = \cot(A - 18^\circ)$ ,  $A$  वा मान निर्णय कराँ।  $2A$  एटा सूक्ष्मकोण।

यदि  $\tan 2A = \cot(A - 18^\circ)$ ,  $A$ -एव मान निर्णय करो।  $2A$  एकटि सूक्ष्मकोण।

जुदि  $\tan 2A = \cot(A - 18^\circ)$ ,  $A$  नि मान दिहुन।  $2A$  आ मोनसे ख'नासा ख'ना।

यदि  $\tan 2A = \cot(A - 18^\circ)$ , जहाँ  $2A$  एक न्यूनकोण है, तो  $A$  का मान ज्ञात कीजिए।

20. Prove that/प्रमाण कराँ ये/प्रमाण करो ये/फोरमान खालाम दि/सिद्ध कीजिए कि

$$\frac{\cos A}{1 + \sin A} + \frac{1 + \sin A}{\cos A} = 2 \sec A$$

$A$  is an acute angle. 2

$A$  एटा सूक्ष्मकोण।

$A$  एकटि सूक्ष्मकोण।

$A$  आ मोनसे ख'नासा ख'ना।

$A$  एक न्यूनकोण है।

- 21.** A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is (a) red and (b) not red?

2

এখন মোনাত ৩টা বঙ্গ আৰু ৫টা ক'লা বঙ্গৰ বল আছে। মোনাখনৰ পৰা এটা বল যাদৃচ্ছিকভাৱে টোনা হ'ল। টোনা বলটো (a) বঙ্গ বঙ্গৰ হোৱাৰ আৰু (b) বঙ্গ বঙ্গৰ নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান ?

একটি থলিতে ৩টি লাল এবং ৫টি কালো রঞ্জের বল আছে। থলিটি থেকে একটি বল যাদৃচ্ছিকভাৱে টোনা হলো। টোনা বলটি (a) লাল রঙ হওয়াৰ এবং (b) লাল রঙ না হওয়াৰ সম্ভাবিতা কত ?

গাংসে জলংগাযাচ মোন ৩ গোজা বল আৰু মোন ৫ গোসোম বল দড়। জলংগানিক্রায় সায়জ্জল'য়ৈ থোৰসে বল বহনবায়। (a) গোজা গাবনি জানায় আৰু (b) গোজা গাবনি জাযিনি জাথাবনায়া বেসেবাং ?

এক থেলে মেঁ ৩ লাল ঔৰ ৫ কালী গেঁদে হেঁ। ইস থেলে মেঁ সে এক গেঁদ যদৃচ্ছ্যা নিকালী জাতী হেঁ। ইসকী প্ৰায়িকতা ক্যাহে কি গেঁদ (a) লাল হো ঔৰ (b) লাল নহীন হো ?

### SECTION—C / গ—শাখা / গ—শাখা / গ—বাহাগো / গ—ভাগ

- 22.** Prove that  $\sqrt{2}$  is irrational.

3

প্ৰমাণ কৰাঁ যে  $\sqrt{2}$  অপৰিমেয় ।

প্ৰমাণ কৰো যে  $\sqrt{2}$  অপৰিমেয় ।

ফোৰমান খালাম দি  $\sqrt{2}$  আ রানজোৰথায়ি ।

সিদ্ধ কীজিএ কি  $\sqrt{2}$  এক অপৰিমেয় সংজ্যা হৈ ।

- 23.** Divide the polynomial  $p(x)$  by the polynomial  $q(x)$ , and find the quotient and the remainder :

3

$p(x)$  বহুপদটোক  $q(x)$  বহুপদটোৰে হৰণ কৰাঁ, আৰু ভাগফল আৰু ভাগশেষ নিৰ্ণয় কৰাঁ :

$p(x)$  বহুপদটিকে  $q(x)$  বহুপদটি দ্বাৰা ভাগ কৰো, এবং ভাগফল ও ভাগশেষ নিৰ্ণয় কৰো :

$p(x)$  बिदाब गोबांखी  $q(x)$  बिदाब गोबांजों रान आरो रानगासै आरो रानखोन्दा दिहुन :

बहुपद  $p(x)$  को  $q(x)$  से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए :

$$p(x) = x^3 - 3x^2 + 5x - 3, q(x) = x^2 - 2$$

24. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes  $\frac{1}{2}$  if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? 3

यदि आमि लरत 1 योग कर्वौ आक हरव पवा 1 वियोग कर्वौ, एटा भग्नांश हयगे 1. आमि यदि अकल हरटोतहे 1 योग कर्वौ, तेंते इ हयगे  $\frac{1}{2}$ . भग्नांशटो कि ?

यदि आमरा लवे 1 योग करि एवं हर-एर थेके 1 वियोग करि, एकटि भग्नांश हय 1। आमरा यदि शुधु हरटिते 1 योग करि, ताहले एटि हय  $\frac{1}{2}$ । भग्नांशटि कि ?

जुदि जों रानग्राजों 1 खौ दाजाबो आरो रानग्रानिफ्राय 1 दानख'यो, मोनसे बोखावखोन्दोआ 1 आव सोलायो। जों जुदि रानग्राजोल' 1 खौ दाजाबो अब्ला बेयो जायो  $\frac{1}{2}$ । वे बोखाव खोन्दोआ मा?

यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हम केवल हर में 1 जोड़ दें, तो यह  $\frac{1}{2}$  हो जाती है। वह भिन्न क्या है?

25. Solve/समाधान कर्वा/समाधान करो/मावकुंथाइ दिहुन/हल कीजिए :

3

$$\sqrt{2}x^2 + 7x + 5\sqrt{2} = 0$$

26. The difference of squares of two natural numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. 3

दुटा आभारिक संख्यार वर्गव वियोगफल 180. सक संख्याटोव वर्ग डाङ्बटोव 8 गुण ह'ले, संख्या दुटा निर्णय कर्वा।

दुटि आभारिक संख्यार वर्गव वियोगफल 180. छेट संख्याटिव वर्ग बड्डिव 8 गुण हले, संख्या दुटि निर्णय करो।

मोननै अनजिमानि बर्गफोरनि फारागा 180. दुइसिन अनजिमानि बर्गआ देरसिन अनजिमानि 8 फान गेदेरसिन। अनजिमा मोननैखौ दिहुन।

दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

27. In what ratio does the point  $(-4, 6)$  divide the line segment joining the points  $A(-6, 10)$  and  $B(3, -8)$  internally? 3

$A(-6, 10)$  आरु  $B(3, -8)$  विन्दू संख्योगी रेखाखण्डक  $(-4, 6)$  विन्दूवे कि अनुपातत अनुरिभवत करेव?

$A(-6, 10)$  एवं  $B(3, -8)$  विन्दू संख्योगी रेखाखण्डक  $(-4, 6)$  विन्दू की अनुपातत अनुरिभवत करेव?

$A(-6, 10)$  आरो  $B(3, -8)$  बिन्दो मोननै दाजाबनाय हांखो खोन्दोखो  $(-4, 6)$  बिन्दोआ मा रुजुथाइयाव रानो?

बिन्दु  $(-4, 6)$ , बिन्दुओं  $A(-6, 10)$  और  $B(3, -8)$  को जोड़ने वाले रेखाखण्ड को आंतरिक रूप से किस अनुपात में विभाजित करती है?

28. Find the sum of the first 22 terms of an AP whose common difference is 7 and the 22nd term is 149. 3

एटा समान्तर प्रगतिर साधारण अन्तर 7 आरु 22तम पदटो 149 ह'ले इयाव प्रथम 22टा पदव योगफल निर्णय कराँ।

एकटि समान्तर प्रगतिर साधारण अन्तर 7 एवं 22तम पदटि 149 हले एर प्रथम 22टा पदवेर योगफल निर्णय करो।

मोनसे सानलुलि जौगाथिनि आगोसार फारागाथिया 7 आरो 22थि बिदाबा 149 जायोल्ला ब्रेनि गिबि 22 बिदाबनि दाजाबगासै दिहुन।

उस समान्तर श्रेढ़ी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका सार्व अंतर 7 है और 22वाँ पद 149 है।

29. In an equilateral triangle, prove that three times the square of one side is equal to four times the square of one of its altitudes. 3

प्रमाण कराँ ये एटा समवाह त्रिभुजब एटा बाह्य वर्गब तिनिणुग ताव एडल उम्मतिब वर्गब चारिणुगब समान।

प्रमाण करो ये एकटि समवाह त्रिभुजबे एकटि बाह्य वर्गेर तिनिणुग ताव एकटि उम्मतिब वर्गेर चारिणुगेर समान।

( 14 )

फोरमान खालाम दि मोनसे गोरोब आखान्थि आखान्थिथामनि मोनसे आखान्थिनि वर्गनि थामफानआ बेनि मोनसे जौथाइनि वर्गनि ब्रैफाननि समान जायो।

किसी समबाहु त्रिभुज में, सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के चार गुने के बराबर होता है।

- 30.** Find the value of  $K$  if the points  $(8, 1)$ ,  $(K, -4)$ ,  $(2, -5)$  are collinear.

$(8, 1)$ ,  $(K, -4)$ ,  $(2, -5)$  विन्दु तिनिटा एकबेथीय ह'ले  $K$  व घान निर्णय कर्वा।

$(8, 1)$ ,  $(K, -4)$ ,  $(2, -5)$  विन्दु तिनिटि एकरेथीय हले  $K$ -एर घान निर्णय करो।

$(8, 1)$ ,  $(K, -4)$ ,  $(2, -5)$  बिन्दो मोनथामा से हांखोआरि जायोब्ला  $K$  नि मान दिहुन।

$K$  का मान ज्ञात कीजिए यदि बिन्दुएँ  $(8, 1)$ ,  $(K, -4)$ ,  $(2, -5)$  सरेखी हैं।

- 31.** From each corner of a square of side 4 cm, a quadrant of a circle of radius 1 cm is cut and also a circle of diameter 2 cm is cut as shown in the figure below. Find the area of the remaining portion of the square (Take  $\pi = \frac{22}{7}$ ) :

तलव चित्रित देखुওराब दबे 4 cm बाह्र एटा वर्गक्षेत्रे प्रतिटो चूक्ब पबा 1 cm ब्यासार्धब एटा बृत्तब एटा चोक काटि लोरा हैছे, आब 2 cm ब्यासब एटा बृत्तও काटि लोरा हैছे। वर्गक्षेत्रोब अरशिष्ट अंशब कालि निर्णय कर्वा ( $\pi = \frac{22}{7}$  बुलि धरिबाँ) :

नीचेर चित्रे देखानो धरने 4 cm बाह्र एकटि वर्गक्षेत्रे प्रतिटि कोणा 1 cm ब्यासार्धब एकटि बृत्तब एकटि कोणा केटे नेओया हयेहे एबं 2 cm ब्यासब एकटि बृत्तও केटे नेओया हयेहे। वर्गक्षेत्राटिर अवशिष्ट अंशब कालि निर्णय करो।


$(\pi = \frac{22}{7}$  बले धरो) :

गाहायनि सावगारियाव दिन्थिनाय बादि 4 cm आखान्थिनि मोनसे बर्गब्लाइनि ख'ना मोनब्रैनिफ्राय 1 cm स'खावनि मोनसे बेखननि ज'खाइसै हाख'नाय जाबाय आरो 2 cm खावनि मोनसे बेखन हाख'नाय जाबाय। वर्गनि आद्रा थानाय बाहागोनि दब्लाइथि दिहुन

$(\pi = \frac{22}{7}$  होननानै हम) :

( 15 )

4 cm भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 cm त्रिज्या वाले वृत्त का एक-चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 cm व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है जैसा कि नीचे आकृति में दर्शाया गया है। वर्ग के शेषभाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ( $\pi = \frac{22}{7}$  लीजिए) :



**SECTION—D / घ—शाखा / घ—शाखा / घ—बाहाग / घ—भाग**

32. Solve the pair of equations by reducing them to a pair of linear equations :

4

तलव समीकरणयोर रैखिक समीकरणैले कपात्तव कवि समाधान कर्वा :

निम्नोक्त समीकरण जोड़ा रैखिक समीकरणे रूपान्तर करे समाधान करो :

गाहायनि समानथाइ ज'राखौ हांखोआरि समानथाइ ज'रायाव सोलायननै मावकुंथाइ दिहुन :

निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए :

$$\frac{5}{x-1} + \frac{1}{y-2} = 2$$

$$\frac{6}{x-1} - \frac{3}{y-2} = 1$$

33.  $ABCD$  is a trapezium with  $AB \parallel DC$ .  $E$  and  $F$  are points on non-parallel sides  $AD$  and  $BC$  respectively such that  $EF$  is parallel to  $AB$ . Show that

$$\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$$

4

[ Contd.

B19-GM/21B

$ABCD$  ट्रिपिजियामब  $AB \parallel DC$ . इयाब असमान्तराल वाहु  $AD$  आक  $BC$  ब ओपरत क्रमे  $E$  आक  $F$  दूटा बिन्दु एनेदबे लोरा ह'ल याते  $EF$  आक  $AB$  समान्तराल। देखुওৱা যে  
 $\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$ .

$ABCD$  ट्रिपिजियामের  $AB \parallel DC$ . এৰ অসমান্তরাল বাহু  $AD$  এবং  $BC$ -এৰ উপৰে  
ক্ৰমে  $E$  এবং  $F$  দুটি বিন্দু এমনভাৱে নেওয়া হলো যাতে  $EF$  এবং  $AB$  সমান্তরাল।  
দেখাও যে  $\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$ .

$ABCD$  ট্ৰিপিজিযামনি  $AB \parallel DC$ . বেনি লিগনডি আখান্ধি  $AD$  আৰো  $BC$ নি সাধাৱ  
ফাৰিয়ে  $E$  আৰো  $F$  মোননৈ বিন্দো এৰোদি লানায় জাবায় জাহাথে  $EF$  আৰো  $AB$  লিগ জায়ো।  
দিন্ধি দি  $\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$ .

$ABCD$  এক সমলংব হৈ জিসমে  $AB \parallel DC$  হৈ। অসমান্তর ভুজাওঁ  $AD$  ঔৰ  $BC$  পৰ  
ক্ৰমশঃ বিন্দু  $E$  ঔৰ  $F$  ইস প্ৰকাৰ স্থিত হৈ কি  $EF$  ভুজ  $AB$  কে সমান্তৰ হৈ। দৰ্শাইএ কি  
 $\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$  হৈ।

34. A 1.5 m tall boy is standing at some distance from a 30 m tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from  $30^\circ$  to  $60^\circ$  as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building.

4

1.5 m ওখ ল'ৰা এজনে 30 m ওখ অট্টালিকাৰ পৰা কিছু দূৰত্বত থিয় হৈ আছে।  
তেওঁ অট্টালিকাটোৰ ফালে খোজ কঢ়াৰ লগে লগে তেওঁৰ চকুৰ পৰা অট্টালিকাটোৰ শীৰ্ষলৈ  
উঠন কোণ  $30^\circ$ ৰ পৰা  $60^\circ$  লৈ বাঢ়ে। তেওঁ অট্টালিকাটোৰ ফালে খোজ কঢ়া দূৰত্ব নিৰ্ণয়  
কৰ্বঁ।

1.5 m লম্বা একটি ছেলে 30 m উচ্চতাৰ অট্টালিকা থেকে কিছু দূৰত্বে দাঁড়িয়ে আছে।  
সে অট্টালিকাটিৰ দিকে হেঁটে যাওয়াৰ সঙ্গে সঙ্গে তাৰ চোখ থেকে অট্টালিকাটিৰ শীৰ্ষে  
উঠন কোণ  $30^\circ$  থেকে  $60^\circ$ তে বেড়ে যায়। তাৰ অট্টালিকাটিৰ দিকে হেঁটে যাওয়াৰ দূৰত্ব  
নিৰ্ণয় কৰো।

1.5 m গোজৌ সাসে হৌবাসায়া 30 m গোজৌ গংসে বিল্ডিনিফ্রায় এসে গোজানাব গসংবায় দং।  
বিনি মেগননিফ্রায় বিল্ডিনি থিখিনিসিম জৌগা খ'নায় বিল্ডিনি ফাৰসে থাবাযলানায়াব  $30^\circ$   
নিফ্রায়  $60^\circ$  সিম বাৰায়বায়। বিয়ো বিল্ডিনি ফাৰসে থাবায় লানায় জানথাইখৌ দিহুন।

1.5 m लंबा एक लड़का 30 m ऊँचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊँचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण  $30^\circ$  से  $60^\circ$  हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है।

- 35.** Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. 4

प्रमाण कराँ ये वृत्तव ब्यासव मृवत टाना स्पर्शक समान्तराल।

प्रमाण करो ये वृत्तव ब्यासेव माथाय टाना स्पर्शक समान्तराल।

फोरमान खालाम दि बैंखननि खाव हांखोनि जोबथा खर'आव बोनाय नांझिद हांखोफोरा लिग जायो।

सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श-रेखाएँ समांतर होती हैं।

- 36.** Construct a triangle of sides 4 cm, 5 cm and 6 cm, and then a triangle similar to it whose sides are  $\frac{2}{3}$  of the corresponding sides of the first triangle. (Write the steps of construction.) 4

4 cm, 5 cm आव 6 cm वाहव एटा त्रिभुज अंकन कराँ आव ताव पिछत इयाव सदृश होराकै एटा त्रिभुज अंकन कराँ याव वाहबोव प्रथम त्रिभुजटोव अनुरूप वाहबोवव  $\frac{2}{3}$  गुण हय। (अंकनव पर्यायबोव लिखिवाँ।)

4 cm, 5 cm एवं 6 cm वाहव एकटि त्रिभुज अक्षन करो एवं तारपर एर सदृश एकटि त्रिभुज अक्षन करो याव वाहगुलि प्रथम त्रिभुजटिव अनुरूप वाहगुलिव  $\frac{2}{3}$  गुण हवे।

(अक्षनेव पर्यायगुलि लिखिवे।)

4 cm, 5 cm आरो 6 cm आखान्थिनि मोनसे आखान्थिथाम आखि आरो बेनि उनाव महरसे जानाय बादियै मोनसे आखान्थिथाम आखि जायनि आखान्थिफोरा सेथि आखान्थिथामनि मोखांसे आखान्थिफोरनि  $\frac{2}{3}$  फान जायो। (आखिनाय आगाफोरखौ लिर।)

4 cm, 5 cm और 6 cm भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएँ दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की  $\frac{2}{3}$  गुनी हों। (रचना के चरणों को लिखिए।)

**SECTION—E / অংশ—E / ଭାଗ—E / ଶାଖା—E / ଶାଖା—E / শাখা—E / পାତ୍ର—E**

37. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 cm. Find the total surface area of the toy. (Take  $\pi = \frac{22}{7}$ )

5

এটা পুতলা একে ব্যাসার্ধযুক্ত এটা অর্ধগোলকৰ ওপৰত 3.5 cm ব্যাসার্ধযুক্ত এটা শংকুৰে গঠিত। পুতলাটোৰ মুঠ উচ্চতা হ'ল 15.5 cm. পুতলাটোৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি নিৰ্ণয় কৰা। ( $\pi = \frac{22}{7}$  বুলি ধৰিবাঁ)

একটি খেলনা একই ব্যাসার্ধযুক্ত একটি অর্ধগোলকেৰ উপৰে 3.5 cm ব্যাসার্ধযুক্ত একটি শংকু দ্বাৰা গঠিত। খেলনাটিৰ মোট উচ্চতা হলো 15.5 cm. খেলনাটিৰ মোট পৃষ্ঠকালি নিৰ্ণয় কৰো। ( $\pi = \frac{22}{7}$  বলে ধৰবে)

মোনসে ফুথলায়া এখে স'খাব গোনাং মোনসে খাবলুৱনি সায়াব 3.5 cm স'খাব গোনাং মোনসে জংহাসুঁজোঁ সোমজিহোনায়। ফুথলানি গাসৈ জৌথাইয়া জাব্বায 15.5 cm. ফুথলানি গাসৈ বিখুঁ দল্লাইথিখী দিহুন। ( $\pi = \frac{22}{7}$  হোননানৈ হম)

এক খিলৌনা ত্ৰিজ্যা 3.5 cm বালে এক শংকু কে আকাৰ কা হৈ, জো উসী ত্ৰিজ্যা বালে এক অর্ধগোলে পৰ অধ্যাৰোপিত হৈ। ইস খিলৌনে কীৰ্তি সংপূৰ্ণ ঊঁচাৰ্ই 15.5 cm হৈ। ইস খিলৌনে কা সংপূৰ্ণ পৃষ্ঠীয় ক্ষেত্ৰফল জ্ঞাত কীজিএ। ( $\pi = \frac{22}{7}$  লীজিএ)

*Or / নাইবা / অথবা / এবা / অথবা*

Metallic spheres of radii 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. Also find the surface area of the new sphere.

(Take  $\pi = \frac{22}{7}$ )

6 cm, 8 cm আৰু 10 cm ব্যাসার্ধৰ তিনিটা ধাতুৰ গোলক গলাই এটা নতুন গোলক তৈয়াৰ কৰা হ'ল। নতুন গোলকটোৰ ব্যাসাৰ্ধ নিৰ্ণয় কৰা। লগতে নতুন গোলকটোৰ পৃষ্ঠকালি নিৰ্ণয় কৰা। ( $\pi = \frac{22}{7}$  বুলি ধৰিবাঁ)

6 cm, 8 cm एवं 10 cm व्यासार्थेर तिनांि धातुर गोलक गनिये एकत्रि नतुन गोलक तैयार करा हलो। नतुन गोलकत्रि व्यासार्थ निर्णय करो। सঙ्गे नतुन गोलकत्रि पृष्ठकालि निर्णय करो। ( $\pi = \frac{22}{7}$  बले धरवे)

6 cm, 8 cm आरो 10 cm स'खावनि मोनथाम धातुनि दुलुर आवलि होनानै मोनसे गोदान गथा दुलुर बानायनाय जाबाय। गोदान दुलुरनि स'खावखौ दिहुन। लोगोसे गोदान दुलुरनि बिखुं दब्लाइथि दिहुन। ( $\pi = \frac{22}{7}$  होननानै हम)

क्रमशः 6 cm, 8 cm और 10 cm त्रिज्याओं वाले धातु के तीन ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस नये गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। साथ ही नये ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ( $\pi = \frac{22}{7}$  लीजिए)

- 38.** The marks distribution of 30 students in a mathematics examination are given below. Find the mode of this data : . . . . . 5

तलव तालिकात 30 जन छात्र्है परीक्षात गणित पोरा नम्बर दिया है। एই तथ्यव बहुलक निर्णय कर्बाँ :

नीचेर तालिकाय 30 जन छात्र्हेर गणित परीक्षाय प्राप्त नम्बर देओया हयेहे। एই तथ्यव बहुलक निर्णय करो :

गाहायनि संलाइयाव सा 30 फरायसाया आनजादआव सानखास्थियाव मोननाय नम्बरफोरखौ होनाय जादों। वे खारिनि गेजेरगां दिहुन :

30 विद्यार्थियों द्वारा गणित की परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक नीचे दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए :

Class interval श्रेणी अन्तराल	10-25	25-40	40-55	55-70	70-85	85-100
No. of students छात्र्हेर संख्या	2	3	7	6	6	6
छात्र्हेर संख्या						
फरायसानि अनजिमा विद्यार्थियों की संख्या						

★ ★ ★